

रिटेल ऋण - ब्याज दरें /प्रसंस्करण प्रभार

दिनांक 02.09.2025 से प्रभावी

अस्थिर (फ्लोटिंग) ब्याज दर पर ऋण

- उल्लिखित ब्याज दरों के अतिरिक्त सभी ब्याज दरें प्रति वर्ष मासिक आधार पर हैं।
- अन्यथा उल्लिखित अस्थिर (फ्लोटिंग) ब्याज दरों के अतिरिक्त नए ऋण के साथ-साथ अंतरण वाले ऋण पर भी लागू है।

सभी प्रभार जीएसटी रहित हैं

ब्याज दर अन्यथा उल्लेखित के अतिरिक्त सभी आरबीएलआर/एमसीएलआर से लिंक है दिनांक 06.06.2025 से प्रभावी आरबीएलआर 8.35% बीएसडी दिनांक 04.08.2025 से लागू		प्रसंस्करण प्रभार																		
1 (ए) (i) स्टार आवास ऋण /स्टार स्मार्ट आवास ऋण/ स्टार डायमंड आवास ऋण		I- वैयक्तिक: ऋण राशि के 0.35% तक न्यूनतम रु.3500/- एवं अधिकतम रु. 30000/- II-स्टार डायमंड आवास ऋण: ऋण राशि की परवाह किए बिना 60000/- रुपए																		
<table><tr><th>वैतनिक</th><th>गैर-वैतनिक</th></tr><tr><td>सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 840 और अधिक</td><td>आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 1.00% घटाकर, वर्तमान में 7.35%</td></tr><tr><td>सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 825 से अधिक और 839 तक</td><td>आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.85% घटाकर, वर्तमान में 7.50%</td></tr><tr><td>सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 800 से अधिक और 824 तक</td><td>आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.85% घटाकर वर्तमान में 7.50%</td></tr><tr><td>सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 760 से अधिक और 799 तक</td><td>आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.70% घटाकर वर्तमान में 7.65%</td></tr><tr><td>सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 725 से अधिक और 759 तक</td><td>आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.45% घटाकर वर्तमान में 8.00%</td></tr><tr><td>सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 700 से अधिक और 724 तक</td><td>आरबीएलआर + सीआरपी 0.20% बीएसडी 0.05% घटाकर वर्तमान में 8.50%</td></tr><tr><td>सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 700 से कम (केवल समीक्षा के लिए)</td><td>आरबीएलआर + सीआरपी 1.75%, वर्तमान में 10.10%</td></tr><tr><td>सिबिल-वैयक्तिक स्कोर -1 और 0</td><td>आरबीएलआर + सीआरपी 0.30% बीएसडी 0.65% घटाकर वर्तमान में 8.00%</td></tr></table>			वैतनिक	गैर-वैतनिक	सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 840 और अधिक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 1.00% घटाकर, वर्तमान में 7.35%	सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 825 से अधिक और 839 तक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.85% घटाकर, वर्तमान में 7.50%	सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 800 से अधिक और 824 तक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.85% घटाकर वर्तमान में 7.50%	सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 760 से अधिक और 799 तक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.70% घटाकर वर्तमान में 7.65%	सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 725 से अधिक और 759 तक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.45% घटाकर वर्तमान में 8.00%	सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 700 से अधिक और 724 तक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.20% बीएसडी 0.05% घटाकर वर्तमान में 8.50%	सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 700 से कम (केवल समीक्षा के लिए)	आरबीएलआर + सीआरपी 1.75%, वर्तमान में 10.10%	सिबिल-वैयक्तिक स्कोर -1 और 0	आरबीएलआर + सीआरपी 0.30% बीएसडी 0.65% घटाकर वर्तमान में 8.00%
वैतनिक	गैर-वैतनिक																			
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 840 और अधिक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 1.00% घटाकर, वर्तमान में 7.35%																			
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 825 से अधिक और 839 तक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.85% घटाकर, वर्तमान में 7.50%																			
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 800 से अधिक और 824 तक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.85% घटाकर वर्तमान में 7.50%																			
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 760 से अधिक और 799 तक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.70% घटाकर वर्तमान में 7.65%																			
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 725 से अधिक और 759 तक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.45% घटाकर वर्तमान में 8.00%																			
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 700 से अधिक और 724 तक	आरबीएलआर + सीआरपी 0.20% बीएसडी 0.05% घटाकर वर्तमान में 8.50%																			
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 700 से कम (केवल समीक्षा के लिए)	आरबीएलआर + सीआरपी 1.75%, वर्तमान में 10.10%																			
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर -1 और 0	आरबीएलआर + सीआरपी 0.30% बीएसडी 0.65% घटाकर वर्तमान में 8.00%																			
रेपो लिंकड																				
स्टार प्रवासी के लिए (महिला लाभार्थी को सम्मिलित कर)	आरबीएलआर + 0.10% सीआरपी, 0.70% बीएसडी घटाकर वर्तमान में 7.75%																			

➤ 100 बीपीएस के बीएसडी के अंतर्गत 0.10% का अतिरिक्त बीएसडी प्रस्तावित है, जो न्यूनतम 7.35% के अधीन है। • गृह ऋण अधिग्रहण • केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारियों को गृह ऋण • होम लोन क्रेडिट लाइफ के अंतर्गत कवर किया जाता है यदि आवेदक उपरोक्त श्रेणियों में से एक से अधिक के अंतर्गत पात्र है, तो अधिकतम 0.10% अतिरिक्त बीएसडी की पेशकश की जाएगी। यह बीएसडी क्रेडिट लाइफ बीमा के वित्तपोषण के लिए भी लागू है। ➤ 2 करोड़ रुपए से अधिक के स्मार्ट आवास ऋण के मामले में प्रस्तावित ब्याज दरों के अतिरिक्त 0.25% का प्रीमियम लिया जाएगा। ➤ सीआरई-आरएच आवास ऋण पर 0.50% अतिरिक्त ब्याज दर लागू होगा। ➤ मौजूदा गृह ऋण खाते की समीक्षा के दौरान, उपरोक्त तालिका के अनुसार व्यवसाय रणनीति छूट की पेशकश की जाएगी, जो उपरोक्त तालिका में दी गई अधिकतम अनुमत बीएसडी के अधीन होगी।												
2. स्टार टॉप –अप ऋण संबंधित आवास ऋण खाता में लागू ब्याज दर के साथ 0.50% का प्रीमियम		आवास ऋण पर लागू अनुसार										
3.	स्टार सुविधा एक्सप्रेस वैयक्तिक ऋण (एसएसईपीएल) <table><tr><td>वैतनिक/पेंशनर</td><td>आरबीएलआर+सीआरपी 2.50%+बीएसपी 0.25 वर्तमान में 11.10%</td></tr><tr><td>अन्य के लिए</td><td>आरबीएलआर+सीआरपी 3.50%+बीएसपी 0.25 वर्तमान में 12.10%</td></tr></table>	वैतनिक/पेंशनर	आरबीएलआर+सीआरपी 2.50%+बीएसपी 0.25 वर्तमान में 11.10%	अन्य के लिए	आरबीएलआर+सीआरपी 3.50%+बीएसपी 0.25 वर्तमान में 12.10%	ऋण राशि का वन टाइम @ 1.00% न्यूनतम रु.2500/- और अधिकतम रु.15000/-						
वैतनिक/पेंशनर	आरबीएलआर+सीआरपी 2.50%+बीएसपी 0.25 वर्तमान में 11.10%											
अन्य के लिए	आरबीएलआर+सीआरपी 3.50%+बीएसपी 0.25 वर्तमान में 12.10%											
4.	स्टार वैयक्तिक ऋण योजना <table><tr><td>पूर्णतः प्रतिभूत</td><td>आरबीएलआर+सीआरपी 4.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 13.10%</td></tr><tr><td>स्पष्ट / गैर-जमानती</td><td>आरबीएलआर+सीआरपी 5.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 14.10%</td></tr><tr><td>60 साल या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए तथा 50000/- रुपए तक के ऋण के लिए</td><td>आरबीएलआर+सीआरपी 3.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 12.10%</td></tr><tr><td>टार्ड-अप करारों के अंतर्गत संरक्षित वित्तपोषण</td><td>आरबीएलआर+सीआरपी 4.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 13.10%</td></tr></table>	पूर्णतः प्रतिभूत	आरबीएलआर+सीआरपी 4.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 13.10%	स्पष्ट / गैर-जमानती	आरबीएलआर+सीआरपी 5.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 14.10%	60 साल या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए तथा 50000/- रुपए तक के ऋण के लिए	आरबीएलआर+सीआरपी 3.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 12.10%	टार्ड-अप करारों के अंतर्गत संरक्षित वित्तपोषण	आरबीएलआर+सीआरपी 4.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 13.10%	<table><tr><td> ऋण राशि का वन टाइम @ 1.00% न्यूनतम रु.2500/- और अधिकतम रु.15000/- </td></tr><tr><td> वरिष्ठ नागरिक (60 साल या उससे अधिक) प्रसंस्करण प्रभार नहीं </td></tr></table>	ऋण राशि का वन टाइम @ 1.00% न्यूनतम रु.2500/- और अधिकतम रु.15000/-	वरिष्ठ नागरिक (60 साल या उससे अधिक) प्रसंस्करण प्रभार नहीं
पूर्णतः प्रतिभूत	आरबीएलआर+सीआरपी 4.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 13.10%											
स्पष्ट / गैर-जमानती	आरबीएलआर+सीआरपी 5.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 14.10%											
60 साल या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए तथा 50000/- रुपए तक के ऋण के लिए	आरबीएलआर+सीआरपी 3.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 12.10%											
टार्ड-अप करारों के अंतर्गत संरक्षित वित्तपोषण	आरबीएलआर+सीआरपी 4.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 13.10%											
ऋण राशि का वन टाइम @ 1.00% न्यूनतम रु.2500/- और अधिकतम रु.15000/-												
वरिष्ठ नागरिक (60 साल या उससे अधिक) प्रसंस्करण प्रभार नहीं												

5.	बीओआई स्टार रूफ टॉप सोलर पैनल वित्तपोषण <table><tr><td>1. व्यक्तियों के लिए</td><td>2.00 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए: आरबीएलआर - 2.35% वर्तमान में 6.00% प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपए से अधिक की ऋण राशि के लिए: आरबीएलआर पर, वर्तमान में 8.35% प्रति वर्ष</td></tr><tr><td>2. पंजीकृत समूह आवासीय समितियों/आवासीय कल्याणकारी संघों के लिए</td><td>आरबीएलआर + सीआरपी 2.50% वर्तमान में 10.85% प्रति वर्ष</td></tr></table>	1. व्यक्तियों के लिए	2.00 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए: आरबीएलआर - 2.35% वर्तमान में 6.00% प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपए से अधिक की ऋण राशि के लिए: आरबीएलआर पर, वर्तमान में 8.35% प्रति वर्ष	2. पंजीकृत समूह आवासीय समितियों/आवासीय कल्याणकारी संघों के लिए	आरबीएलआर + सीआरपी 2.50% वर्तमान में 10.85% प्रति वर्ष	शून्य
1. व्यक्तियों के लिए	2.00 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए: आरबीएलआर - 2.35% वर्तमान में 6.00% प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपए से अधिक की ऋण राशि के लिए: आरबीएलआर पर, वर्तमान में 8.35% प्रति वर्ष					
2. पंजीकृत समूह आवासीय समितियों/आवासीय कल्याणकारी संघों के लिए	आरबीएलआर + सीआरपी 2.50% वर्तमान में 10.85% प्रति वर्ष					
6.	स्टार पेंशनर ऋण योजना <table><tr><td>स्टार पेंशनर ऋण योजना के अनुसार पूर्णतः प्रतिभूत / स्पष्ट/गैर-जमानती</td><td>आरबीएलआर+सीआरपी 2.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 11.10%</td></tr></table>	स्टार पेंशनर ऋण योजना के अनुसार पूर्णतः प्रतिभूत / स्पष्ट/गैर-जमानती	आरबीएलआर+सीआरपी 2.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 11.10%	वरिष्ठ नागरिक (60 साल या उससे अधिक) प्रसंस्करण प्रभार नहीं, अन्य के लिए : ऋण राशि का वन टाइम @0.50% न्यूनतम रु. 250/- अधिकतम रु.1000/-		
स्टार पेंशनर ऋण योजना के अनुसार पूर्णतः प्रतिभूत / स्पष्ट/गैर-जमानती	आरबीएलआर+सीआरपी 2.50%+बीएसपी 0.25% वर्तमान में 11.10%					

**7. (ए) स्टार वाहन ऋण
वाहन ऋण वैयक्तिक सिबिल स्कोर से लिंक है**

4 व्हीलर्स / सुपर बाइक (5 लाख से अधिक)

सिबिल स्कोर / बाह्य रेटिंग	वैतनिक	स्व-रोजगार
सिबिल- वैयक्तिक स्कोर/ बाह्य रेटिंग 825 और उससे अधिक/AAA/AA रेटेड	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.50% घटाकर वर्तमान में 7.85%	
800 और 824 के बीच/A रेटेड	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.50% घटाकर वर्तमान में 7.85%	
760 और 799 के बीच BBB रेटेड	आरबीएलआर + सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.10% घटाकर वर्तमान में 8.25%	
725 और 759 के बीच	आरबीएलआर + सीआरपी 0.35% बीडीएस 0.20% घटाकर वर्तमान में 8.50%	
BBB से नीचे रेटेड	आरबीएलआर + सीआरपी 0.35% बीडीएस 0.20% घटाकर वर्तमान में 8.50%	
700 और 724 के बीच	आरबीएलआर + सीआरपी 0.45% वर्तमान में 8.80%	
700 से नीचे (केवल समीक्षा के लिए)	आरबीएलआर + सीआरपी 1.75% वर्तमान में 10.10%	
-1 और 0 का स्कोर	आरबीएलआर + सीआरपी 0.30% वर्तमान में 8.65%	

टू व्हीलर्स के लिए	वैतनिक	गैर -वैतनिक /गैर - वैयक्तिक
	आरबीएलआर + 2.00% वर्तमान में 10.35%	आरबीएलआर + 2.10% वर्तमान में 10.45%
सेकंड हैंड वाहन के लिए	आरबीएलआर + 2.15% वर्तमान में 10.50%	आरबीएलआर + 2.25% वर्तमान में 10.60%

**7 (बी) व्यक्तियों के अतिरिक्त संस्थाओं के मामलों में
(जहां बाह्य रेटिंग लागू न हो):**

सीएमआर/इक्विफैक्स-3 और बेहतर	आरबीएलआर 8.35%+सीआरपी 0.00% बीडीएस 0.35% घटाकर वर्तमान में 8.00%
सीएमआर/इक्विफैक्स-4 और 5	आरबीएलआर 8.35%+सीआरपी 0.35% बीडीएस 0.20% घटाकर वर्तमान में 8.50%
सीएमआर/इक्विफैक्स-6 से आगे या कोई सीएमआर/इक्विफैक्स नहीं	आरबीएलआर 8.35%+सीआरपी 1.00% वर्तमान में 9.35%

I- नए 4 व्हीलर: 0.25% की सीमा, न्यूनतम रु. 2500/- अधिकतम रु. 10000/-

II- 2 व्हीलर /पुराना वाहन: ऋण राशि का 1.0% न्यूनतम रु. 1000/- अधिकतम रु. 5000/-

ई-वाहनों के खरीद के मामले में, लागू प्रसंस्करण शुल्क पर 50% की छूट।

गैर वैयक्तिक के लिए : वैयक्तिक के लिए प्रसंस्करण प्रभार लागू प्रभार का दोगुना (अधिकतम सीमा सहित)

8. स्टार शिक्षा ऋण: ए. आईबीए योजना के अनुसार शिक्षा ऋण		भारत में अध्ययन के लिए – प्रसंस्करण प्रभार नहीं विदेशों में अध्ययन के लिए : 10,000/- रुपए (20 लाख के ऋण सीमा के लिए प्रसंस्करण प्रभार जीएसटी को छोड़ ऋण प्राप्त होने के बाद वापस कर दिया जाएगा)
सीजीएफएसईएल के अंतर्गत 7.50 लाख रुपए तक कवर	आरबीएलआर + 1.70% वर्तमान में 10.05%	
7.50 लाख रुपए से अधिक	आरबीएलआर + 1.50% वर्तमान में 9.85%	
रियायतें*: क) छात्राओं के लिए : 0.50 % ख) सभी विद्यार्थी जो पेशेवर पाठ्यक्रम (इंजीन्यरिंग /मेडिकल/मैनेजमेंट) कर रहे हैं वे 0.50% के छूट के योग्य हैं ।		
बी. स्टार विद्यालक्ष्मी योजना:		
सभी आईआईटी/आईआईएम/एम्स	आरबीएलआर+सीआरपी 0.00% बीएसडी 1.25% घटाकर वर्तमान में 7.10% प्रति वर्ष	
लिस्ट ए के अनुसार संस्थान	आरबीएलआर+सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.85% घटाकर वर्तमान में 7.50% प्रति वर्ष	
लिस्ट बी के अनुसार संस्थान	आरबीएलआर+सीआरपी 0.00% बीएसडी 0.50% घटाकर वर्तमान में 7.85% प्रति वर्ष	
लिस्ट सी के अनुसार संस्थान	@आरबीएलआर वर्तमान में 8.35% प्रति वर्ष	
लिस्ट डी के अनुसार संस्थान	आरबीएलआर+सीआरपी 0.50% वर्तमान में 8.85% प्रति वर्ष	
कोई अन्य रियायतें लागू नहीं होगी।		
सी. प्रधान मंत्री कौशल ऋण योजना		शून्य
आरबीएलआर + 1.50 वर्तमान में 9.85% यदि अध्ययन अवधि के दौरान तथा पुनर्भुगतान शुरू होने से पहले की अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है, तो ऋण लेने वालों को ब्याज में 1% की रियायत दी जा सकती है। पुनर्भुगतान शुरू होने के बाद कोई रियायत उपलब्ध नहीं होगी।		
डी. स्टार प्रोग्रेसिव शिक्षा ऋण:		शून्य
अन्य के लिए	आरबीएलआर + सीआरपी 1.70% वर्तमान में 10.05%	
हमारे बैंक के स्टाफ के बच्चों और उनके पति/पत्नी के लिए	आरबीएलआर + सीआरपी 0.70% वर्तमान में 9.05%	
छात्राओं के लाभ के लिए स्वीकृत ऋणों पर ब्याज दर में 0.50 % की छूट।		

9. संपत्ति पर स्टार ऋण (ए) व्यक्तियों के लिए :				ऋण के लिए (किस्तों में चुकाने योग्य) स्वीकृत ऋण राशि का वन टाइम @1% न्यूनतम 10000/-रुपए और अधिकतम 100000/-रुपए बंधक ओडी के लिए (घटाने योग्य) मूल स्वीकृति के समय प्रथम वर्ष के लिए स्वीकृत सीमा का 1%, न्यूनतम रु.10,000/- तथा अधिकतम रु.100000/- आगामी वर्षों के लिए समीक्षित सीमा का 0.25% न्यूनतम रु.2,500/- एवं अधिकतम रु.40,000/-.								
	मीयादी ऋण (टर्म लोन)											
	आवासीय संपत्ति	वाणिज्यिक/ औद्योगिक स्वयं अधिगृहीत संपत्ति	वाणिज्यिक/ औद्योगिक (गैर-स्वयं अधिगृहीत संपत्ति)									
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 760 और उससे अधिक	आरबीएलआर + 0.75% वर्तमान में 9.10%	आरबीएलआर + 1.25% वर्तमान में 9.60%	आरबीएलआर + 1.50% वर्तमान में 9.85%									
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 700 और 759 के बीच	आरबीएलआर + 1.25% वर्तमान में 9.60%	आरबीएलआर + 1.75% वर्तमान में 10.10%	आरबीएलआर + 2.00% वर्तमान में 10.35%									
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 700 से कम (केवल समीक्षा के लिए)	आरबीएलआर + 3.00% वर्तमान में 11.35%											
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर -1 और 0	आरबीएलआर + 1.50% वर्तमान में 9.85%	आरबीएलआर + 2.00% वर्तमान में 10.35%	आरबीएलआर + 2.25% वर्तमान में 10.60%	बंधक शुल्क:- <table><tr><td>10.00 लाख रुपए तक की सीमा</td><td>रु.5000/-</td></tr><tr><td>10.00 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख तक की सीमा</td><td>रु.10000/-</td></tr><tr><td>100 लाख रुपए से अधिक का ऋण 500 लाख रुपए तक</td><td>रु.20000/-</td></tr><tr><td>500.00 लाख रुपए से अधिक की सीमा</td><td>रु. 30000/-</td></tr></table>	10.00 लाख रुपए तक की सीमा	रु.5000/-	10.00 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख तक की सीमा	रु.10000/-	100 लाख रुपए से अधिक का ऋण 500 लाख रुपए तक	रु.20000/-	500.00 लाख रुपए से अधिक की सीमा	रु. 30000/-
10.00 लाख रुपए तक की सीमा	रु.5000/-											
10.00 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख तक की सीमा	रु.10000/-											
100 लाख रुपए से अधिक का ऋण 500 लाख रुपए तक	रु.20000/-											
500.00 लाख रुपए से अधिक की सीमा	रु. 30000/-											
- खुले भूखंडों (ओपन प्लॉट्स) पर ऋण के लिए लागू ब्याज दर में अतिरिक्त 1.00% जोड़ा जाएगा। - ओवरड्राफ्ट (घटाने योग्य) सुविधा के लिए लागू ब्याज दर में अतिरिक्त 0.25% जोड़ा जाएगा।												
9. (बी) व्यक्तियों के अलावा: (केवल समीक्षा)												
मीयादी ऋण		आरबीएलआर + 2.00% वर्तमान में 10.35%										
ओडी घटाने योग्य		आरबीएलआर + 2.25% वर्तमान में 10.60%										
ओडी घटाने योग्य नहीं		आरबीएलआर + 2.50% वर्तमान में 10.85%										
10. स्टार आईपीओ				स्वीकृति और वार्षिक समीक्षा के समय स्वीकृत सीमा का 1.00% न्यूनतम 1000/- रुपए और अधिकतम 5000/- रुपए								
60 दिन तक		आरबीएलआर + 3.25% वर्तमान में 11.60%										
60 दिन से अधिक		आरबीएलआर + 4.50% वर्तमान में 12.85%										
12. बयाना जमा-राशि योजना				प्रत्येक आवेदन पर 500/- रुपए वन टाइम								
अल्पावधि (12 महीने से कम)		आरबीएलआर वर्तमान में 8.35%										
दीर्घावधि (12 महीने और उससे अधिक)		आरबीएलआर + 5.00% वर्तमान में 13.35%										
13 स्टार मित्र वैयक्तिक ऋण योजना:				स्थगित किया								
आरबीएलआर + 1.30% वर्तमान में 9.65%												
14. स्टार रिवर्स बंधक ऋण योजना				स्वीकृत सीमा का 0.25% वन टाइम। न्यूनतम 1500/-रुपए और अधिकतम 10000/- रुपए								
आरबीएलआर + 2.60% वर्तमान में 10.95%												

ए. निजी क्रेडिट रिपोर्ट का एक्सेस – प्रति रिपोर्ट प्रभार रु.50/-

बी. सीईआरएसएआई पंजीकरण शुल्क:

क्र.सं.	पंजीकृत किए जाने वाले संव्यवहार की प्रकृति	देय शुल्क राशि
1.	स्वत्व विलेखों को जमा करके बंधक के माध्यम से प्रतिभूति हित के सृजन या आशोधन का विवरण	5 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए प्रतिभूति हित के सृजन और उसके बाद किसी भी आशोधन के लिए 100 रुपए। 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, प्रतिभूति हित के सृजन और आशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रुपए होगा।
2.	स्वत्व विलेखों को जमा करने के अलावा अचल संपत्ति के बंधक के माध्यम से प्रतिभूति हित के सृजन या आशोधन का विवरण	शून्य
3.	संयंत्र और मशीनरी, स्टॉक, बही ऋण या प्राप्य सहित ऋण, चाहे विद्यमान हों या भविष्य के दृष्टिबंधन में प्रतिभूति हित के सृजन या आशोधन का विवरण	5 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए प्रतिभूति हित के सृजन और उसके बाद किसी भी आशोधन के लिए 100 रुपए। 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, प्रतिभूति हित के सृजन एवं आशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रुपए होगा।
4.	अमूर्त आस्तियों में सुरक्षा हित के सृजन या आशोधन का विवरण, जैसे कि तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज़ या समान प्रकृति का कोई अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार।	5 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए प्रतिभूति हित के सृजन और उसके बाद किसी भी आशोधन के लिए 100 रुपए। 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, प्रतिभूति हित के सृजन एवं आशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रुपए होगा।
5.	किसी निर्माणाधीन आवासीय या वाणिज्यिक भवन या उसके किसी भाग में बंधक के अलावा किसी समझौते या लिखत द्वारा प्रतिभूति हित के सृजन या आशोधन का विवरण।	5 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए प्रतिभूति हित के सृजन और उसके बाद किसी भी आशोधन के लिए 100 रुपए। 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, प्रतिभूति हित के सृजन एवं आशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रुपए होगा।
6.	दाखिल किए गए प्रतिभूति हित के लिए प्रभार की संतुष्टि का विवरण	शून्य
7.	वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण का विवरण	रु.500/-
8.	प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण संव्यवहार की संतुष्टि का विवरण	रु.50/-
9.	किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में दर्ज/रखी गई जानकारी के लिए कोई भी आवेदन	रु.10/-
10.	30 दिनों तक के विलंब के लिए माफी हेतु कोई भी आवेदन	मूल शुल्क के 10 गुना से अधिक नहीं, जैसा लागू हो

22.1.2016 से प्रभावी रिकॉर्ड दाखिल करने में विलंब के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू होगा

क्र.सं.	प्रभार्य संव्यवहार दाखिल करने में विलंब के दिनों की संख्या	प्रभारित अतिरिक्त शुल्क	स्पष्टीकरण
1	31 से 40 दिन तक	लागू शुल्क की दोगुनी राशि	यदि लागू शुल्क 100/- रुपए है तो अतिरिक्त लागू शुल्क 200/- रुपए होगा।
2	41 से 50 दिन तक	लागू शुल्क की पांच गुनी राशि	यदि लागू शुल्क 100/- रुपए है तो अतिरिक्त लागू शुल्क 500/- रुपए होगा।
3	51 से 60 दिन तक	लागू शुल्क की दस गुनी राशि	यदि लागू शुल्क 100/- रुपए है तो अतिरिक्त लागू शुल्क 1000/- रुपए होगा।

बशर्ते कि जहां एक से अधिक प्रतिभूति हितों के सृजन या आशोधन के संव्यवहार के विवरण किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय शुल्क वह है जो उस प्रतिभूति हित के लिए निर्धारित शुल्क में सबसे अधिक है जिसके सृजन या आशोधन के विवरण ऐसे व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए गए हैं।